

August 6, 2022

#### **BSE Limited**

Corporate Services Department Phiroze Jeejeeboy Towers Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Symbol: QUINT Scrip Code: 539515

Subject: Newspaper advertisement of the Financial Results (Standalone & Consolidated) for

the quarter ended June 30, 2022

Reference: Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and

**Disclosure Requirements) Regulations, 2015** 

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"), please find enclosed the copies of newspaper advertisement of the Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter ended June 30, 2022, published in "Financial Express" (English Newspaper) and "Pratah Kiran" (Hindi Newspaper) on August 6, 2022.

This intimation will also be hosted on the website of the Company i.e. www.quintdigitalmedia.com.

We request you to take the above information on record.

Yours sincerely

For Quint Digital Media Limited

QUINT DIGITAL MEDIA LTD.

**Tarun Belwal** 

Company Secretary & Compliance Officer

केनरा बैंक Canara Bank

-34, 3rd Floor, DDA shopping-cum-Office Complex Opp Mool Chand Hospital Lajpat Nagar, Delhi-24. Email: cb19208@canarabank.com Ph: 011-79676467, 9653220988

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Properties under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Stressed Assets Management Branch (SAM) of Canara Bank at C-34, Illrd Floor, DDA Shopping Complex, Opposite Moolchand Hospital, New Delhi - 110024 will be sold on "As is where is". "As is what is", and "Whatever there is" on 29/08/2022, for recovery of Rs. 44,26,14,919.26 (Rupees Forty Four Crore Twenty Six Lakhs Fourteen Thousand Nine Hundred Nineteen and Paisa Twenty Six Only) as on 31.12.2019 plus further interest and costs due to the SAM Branch of Canara Bank, C-34, Illrd Floor, DDA Shopping Complex, Opposite Moolchand Hospital, New Delhi - 110024 from M/s Tentiwal Wire Products Ltd. (Presently Tentiwal Metals Products Ltd) Regd Off - H. No. 45, Jagganathpuri, Janambhumi Mathura, Uttar Pradesh-281003, Guarantors: Sri. Radhapad Tentiwal, Smt. Kumkum Tentiwal, Sri. Neelesh Tentiwal, for loans granted to M/s Tentiwal Wire Products Ltd. (Presently Tentiwal Metals Products Ltd).

Details and full description of the immovable property/ies with Reserve Price and Earnest Money to be deposited at the time of bid (There are no known encumbrances on the above properties as per the knowledge of the bank.) -

ı	Sr.	Property Address	Reserve Price	FINID		
l	No.			(in Lacs)	(in Lacs)	
	1.	Factory Land & Building, situated at Kh Kota, Tehsil & District: Mathura, Area: M/s Tentiwal Wire Products Ltd. 8004/15.06.2013 that on the spot area revenue record area in 0.6010 hectal cannot raise issue or make claim in fut Bounded by  East: Others Land (ShyamAheriya), West: Agricultural Land,	208.00	20.80		
	2.	Factory Land & Building, situated at Kl Jaisinghpura Banger, Tehsil & Dist property in the name of M/s Tentiwal V Bounded by East: 10' Service Lane, West: Road	740.00	74.00		

The Earnest Money Deposit shall be deposited on or before 26/08/2022 up to 5:00 PM. The property can be inspected, with Prior Appointment with Authorised Officer, on 23/08/2022, during 11:30am to

For detailed terms and conditions of the sale please refer the link "E-Auction" provided in Canara Bank's website (https://www.canarabank.com) or may contact Chief Manager, SAM Branch of Canara Bank, C-34, Illrd Floor, DDA Shopping Complex, Opposite Moolchand Hospital, New Delhi - 110024, Ph. No. 011- 79676467, 8950109036 during office hours on any working day. Place: New Delhi Authorised Officer

Date: 04.08.2022 **Canara Bank** 

RESPONDENT

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, DELHI 4™ FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING. PARLIAMENT STREET, NEW DELHI: 110001 DATE: 22.04.2022

SA DY NO 925/2020 AU SMALL FINANCE BANK LTD. APPLICANT **VERSUS** 

M/S BANK OF INDIA & ORS.

1. BANK OF INDIA

A-6, MEERA BAG NEW DELHI

SH. SANJIV ANAND S/O SH. LAL KASHMIRI

P-164, GALI NO.7 BIHARI COLONY SHAHDARA NORTH EAST DELHI - 32 PLOT NO. 361, NEAR TANK PATPARGANJ INDUSTRIAL AREA DELHI - 92

3. MS. NIDHI ANAND W/O SH. BED RAM P-164, GALI NO.7 BIHARI COLONY SHAHDARA NORTH EAST DELHI - 32

Whereas the above named applicant(s) has/ have instituted a case for recovery or Rs 23.44.886/- (RUPEE TWENTY THREE LAKH FORTY FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY SIX ONLY) against you and where it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in the ordinary way therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in the Tribunal on 25.08.2022 at 10:30 A.M. Take notice that in default of your appeareance on the day before the mentioned, the

case will be heard and determined in your absence. Due to ongoing Pandemic situation, all the matters will be taken up through Video

Conferencing and for that purpose:-All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex" application/software:

(ii) "Meeting ID" and Password for the date of hearing qua cases to be taken by Registrar/Recovery Officer-I/ and Recovery Officer-II shall be displayed in the daily cause list itself at DRT Official Portal i.e. drt.gov.in (iii) In any exigency qua that the Advocates/Litigants can contact the concerned official

at Ph. No. 23748478. Given under my hand and seal of the Tribunal this the 22<sup>™</sup> day of April, 2022. BY ORDER OF THE TRIBUNAL

ASSISTANT REGISTRAR DRT-II, DELHI.

### **NORTHERN RAILWAY** NOTICE FOR E-AUCTION Senior Divisional Commercial Manager/Freight, Delhi Division, Northern

Railway, in terms of Railway Board letter no. 2022/TC(FM)/10/04 dated 13.06.2022. invites bids through e-Auction (www.ireps.gov.in) for leasing of parcel space of SLR compartments in following trains originating from Delhi division for a period of two years as per schedule given below:

12646 (F1, F2 & R1), 12650 (F1) - 12.09.2022 at 11:30 am. 12448 (F1) 22482 (F1, F2 & R1) - 13.09.2022 at 11:30 am. 14035 (F1, F2 & R1), 22466 (F1) - 14.09.2022 at 11:30 am.

12005 (F1), 12011 (F1) 12214 (F1), 12463 (F1) - 15.09.2022 at 11:30 am 12029 (F1), 12040 (F1), 12045 (F1), 12804 (F1) - 16.09.2022 at 11:30 am 12455 (F1), 12818 (F1), 12918 (F1), 15274 (F1) - 19.09.2022 at 11:30 am 12282 (F1), 12724 (F1), 13430 (F1), 15657 (F1) -20.09.2022 at 11:30 am

12582 (F1), 14316 (F1, F2 & R1), 21.09.2022 at 11:30 am 12191 (F1), 15035 (F1, F2 & R1), 22.09.2022 at 11:30 am

10. 12017 (F1), 12280 (F1), 12874 (F1), 22634 (F1) - 23.09.2022 at 11:30 am 11. 12644 (F1, F2 & R1), 14041 (F1), 26.09.2022 at 11:30 am

12. 12148 (F1, F2 & R1), 14010 (F1) - 27.09.2022 at 11:30 am 13. 22429 (F1), 22454 (F1, F2 & R1), 28.09.2022 at 11:30 am

14. 12780 (R1), 14521 (F1, F2 & R1), 29.09.2022 at 11:30 am 15. 12394 (F1), 12432 (F1), 12442 (F1), 12782 (F1), -30.09.2022 at 11:30 am 16. 12310 (F1), 14021 (F1 & R1), 15280 (F1) - 06.10.2022 at 11:30 am

17. 12284 (F1), 12986 (F1), 22401 (F1), 22414 (F1) -07.10.2022 at 11:30 am 18. 12584 (F1), 14152 (F1), 14553 (F1 & R1) - 10.10.2022 at 11:30 am.

For more information, requirement and various aspects regarding these e Auctions,

interested bidders are advised to visit https://www.ireps.gov.in/html/helpdesk/ learning centre.html. (e-Auction leasing section).

2. Earnest Money Deposit (EMD): 5% of the total contractual bid value to be deposited online during the auction. EMD of the successful bidder will be retained as

3. Railway Administration reserves the full and absolute rights to short terminate these contracts at any point of time and/or for taking any decision regarding the discontinuation/continuation of these contracts with modified/additional terms and conditions depending upon the continuation/discontinuation of these trains or commencement of new train services.

Serving Customers With A Smile

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD C-29.Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058, Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com, Website: www.kangrabank.com APPENDIX IV

## [See rule 8(1)] **POSSESSION NOTICE** (For immovable property)

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", Head office at, C-29,Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058, having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated 10-12-2019, calling upon the borrower Sh.Raj Kumar S/o.Sh, Sunder Lal R/o, Z-2, Vishnu Garden, 1st Floor, New Delhi-110018 also at Sh, Rai Kumar S/o.Sh. Sunder Lal, C/o.M/s. Prashar Digital Network, C-327, Khyala J.J.Colony, New Delhi-110018 and calling upon the Mortgagor & Surety Smt. Tiruna Parashar W/o. Sh. Raj Kumar R/o. Z-2, (Old No.RZ-32/5C) Village Khyala, Vishnu Garden, New Delhi-110018, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.9,97,311/- (Rupees Nine Lakhs Ninety Seven Thousand Three Hundred and Eleven Only), together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of the notice.

The above mentioned borrower, mortgagor & surety having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, mortgagor & surety and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 03rd. day of August 2022.

The borrower, mortgagor & surety in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of Rs.9,97,311/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said

The borrower, mortgagor & surety attention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act. 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged

property/Secured Asset. **DISCRIPTION OF THE PROPERTY** 

The property under All the part and parcel of the ENTIRE FIRST FLOOR WITHOUT ROOF consideration is a RIGHTS, PORTION OF FREE HOLD PROPERTY BEARING NO.Z-2, OLD Entire built up first NO.RZ-32/5C, LAND AREA MEASURING 29.30 SQ. MTRS. APPROX.,

floor without roof (i.e.35 sq. vds. Approx...) OUT OF KHASRA NO.17/2, SITUATED IN THE rights area meas- AREA OF VILLAGE KHYALA, DELHI, COLONY KNOWN AS VISHNU uring 35 Sq.yds. GARDEN, NEW DELHI-110018. Falling Under the Registration of Sub-Registrar II Basai Darapur, Delhi. Approx. Bounded as under :-

EAST Other's Property. WEST Other's Property. NORTH Other's Property. SOUTH Road.

financialexp.epap.in

Date: 03-08-2022

Place: Delhi

(HARISH SHARMA) **AUTHORISED OFFICER** THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT. C-29, COMMUNITY PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58. PHONE No. 9013568418,9013568419



RECOVERY SECTION, REGIONAL OFFICE, NORTH DELHI

PH. 011-47456409/47524675 Email: ronrecdel@canarabank.com **E-AUCTION SALE ON** 07.09.2022

Three Lakhs Eighty Eight Thousand Seven

Hundred Fifty Two and Zero Five Paise only)

INTEREST & OTHER CHARGES THEREON

Amount due-Rs. 15,62,865.00 (Rupees

Fifteen Lakhs Sixty Two Thousand Eight

Hundred and Sixty five only) PLUS

SALE NOTICE

E-Auction sale notice for sale of Immovable property under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to rule 8(6) of the security interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured creditors, the constructive possession of which has been taken by the Authorised Officer of Canara Bank, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 07.09.2022 from 12.00 p.m. to 12.30 p.m. [with unlimited extension of 5 minutes duration each till the conclusion of sale and with minimum incremental amount of Rs 10,000.00], for recovery of its dues to the Bank from the parties concerned. Full description of the immovable properties, Reserve Price, EMD, Liabilities and known Encumbrance(s), if any are as under:-

S. lo.	Name of Branch and Details of the borrower	Details of Properties	Reserve Price	Earnest Money Deposit	SARFAESI demand notice
1.	DELHI-110088 PH-011-27490670, 27490671	PROPERTY BEARING: PLOT NO. 6 IN KHASRA NO. 380, SITUATED AT VILLAGE HARSAON, PARGANA DASNA GHAZIABAD U.P – 201013 OWNED BY MRS MAHENDRI DEVI W/OLT SH SATYAPAL SINGH) Total Plinth area: 1080 sq ft	1.22 CRORE	Rs. 12.2 LAKH	Rs. 42,64,846.00 (Rupees Forty Two Lakhs Sixty Four Thousand Eight Hundred Forty Six only) which include interest up to 30.11.2018 plus further interest at applicable rate from 01.12.2018 along with expenses, other charges, etc.
2.	Email: cb19060@canarabank.com M/S SHARMA ENTERPRISES	EMT of Property Bearing Municipal No E-2 /198 A, Entire Third Floor with Roof Right, Situated at Shastri Nagar, DELHI – 110052. Area measuring - 50 Sq yd	19.00 Lakh	Rs. 1.90 Lakh	Rs. 25,86,036.03 (Rupees Twenty Five Lakh Eighty Six Thousand Thirty Six and Three Paisa) which include interest up to 31-03-2019 plus further interest at applicable rate from 01-04-2019 along with expenses, other charges, etc
3.	DELHI-110093, PH-011-22121575 Email: cb19117@canarabank.com M/S SONU MEDICAL STORE	PROPERTY BEARING: Khasra No. 76, flat at first floor Portion of property No. 6/124, situated at Area of Village – Babarpur Ext, Gali No. 5, Kabir Nagar, Illaqa – Shahdara, Delhi – 110094 owned by Shabnam w/o Sarfaraz Ahmed Area-442.62 SQ FEET	9.29 Lakh	Rs. 0.93 Lakh	Rs. 11,98,843.64 (Rupees Eleven Lakh Ninety Eight Thousand Eight Hundred Forty Three and Sixty Four Paisa only) which include interest up to 28.02.2020 plus further interest at applicable rate from 01.03.2020 along with expenses, other charges, etc
4.		PROPERTY BEARING: LIG FLAT NO. 202, SECOND FLOOR WITH ROOF RIGHTS, CUILT ON PLOT NO. III-A-333, "AMARAWAT APARTMENTS-IV", SECTOR – 3, VAISHALI, GHAZIABAD, U.P. Covered Area: 340 Sq ft	20.90 Lakh	Rs. 2.09 Lakh	Rs. 5,68,921.99 (Rupees Five Lakh Sixty Eight Thousand Nine Hundred Twenty One and Ninety Nine Paisa only) which include interest up to 15.06.2021 plus further interest at applicable rate from 16-06-2021 along with expenses, other charges, etc.

Date & Time of E-auction 07.09.2022 from 12 .00 p.m. to 12.30 p.m. LAST DATE FOR SUBMISSION OF EMD 05.09.2022 BEFORE 5.00 PM A/c No-8310296000001, IFSC-CNRB0008310, BRANCH: Regional Office North Delhi (With unlimited extension of 5 minutes duration each till the conclusion of the sale) Outstanding dues: Rs of local self government as on 04.08.2022 (property tax, water tax, electricity bills etc) = Not known to bank for any of the above property.

The EMD should be deposited on or before 05.09.2022 up to 05:00 PM. Property can be visited on 02.09.2022, 03.09.2022 and 05.09.2022 between 10.00 A.M. to 5.00 P.M. For detailed terms and conditions of the sale please refer the link "E-Auction" provided in Canara Bank's website www.canarabank.com or https://indianbankseauction.com or may contact the followings:

For Property at SI. No 1: SH. RAVI N, Mobile No 9834263399 Divisional Manager, North Delhi Regional Office Canara Bank, and/or, Ms. DIVYA SINGH, Sr Manager, Canara Bank, Haiderpur Branch (E Synd), Mobile no-9654011390 ,Land Line No. 011-27490670, 27490671, e-mail id-cb19021@canarabank.com

For property at SI. No 2: SH. RAVI N, Mobile No 9834263399 Divisional Manager, North Delhi Regional Office Canara Bank, and/or, RAJ KUMAR BANSAL, Ashok Vihar Branch (E Synd), Canara Bank, Mobile No 9972003487 Land Line No. 011-27466159, e-mail id-cb19060@canarabank.com SH. RAVI N, Mobile No 9834263399 Divisional Manager, North Delhi Regional Office Canara Bank, and/or, BRIJ MOHANDTC Nandnagri, Canara Bank, Mobile No9053041881,

SH. RAVI N, Mobile No 9834263399 Divisional Manager, North Delhi Regional Office Canara Bank, and/or, PREM NIWAS CHANDAN KINGSWAY CAMP GTB, Canara Bank, For property at SI. No 4: Mobile No7979092616, Land Line No. 011-27601330, e-mail id-cb19033@canarabank.com

OR the service provider M/s Canbank Computer Service Ltd., Mr Sathianathan K.M, Mr. Ramesh T H MOB: 9480691777/8880531165/08023469661/62/64/65email: www.indianbankseauction.com Above branch in charge may be contacted during office hours on any working day. Service provider for the above e auction:

M/S CANBANK COMPUTER SERVICE LTD., MR. SATHIANATHAN K.M, MR. RAMESH T H. MOB: 9480691777/8880531165/08023469661/62/64/65 EMAIL: indianbankseauction.com

**AUTHORISED OFFICER, CANARA BANK** 

OPP. PATEL GALI, SHAHDARA, DELHI-110032)

Union Bank Regional Office-Delhi North, Second Floor, Faiz Road-1, New Delhi-110005, Phone No. 011-28754615, 28754642 Email Id: law.rodelhinorth@unionbankofindia.bank SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable/Moveable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/ charged to the Secure

Creditor, the constructive/ physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Union Bank of India (secured creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on the date mentioned below, for recovery of dues as mentioned hereunder to Union Bank of India from the below mentioned Borrower(s) & Guarantor(s). The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are also mentioned hereunder: S.No. Branch name and address Anand Vihar Branch, PHONE-7738313367

1. Name of the Borrower & BORROWER: M/s PERFECT MARKETING, Add: 27/108/4D, JAWALA NAGAR, PANDAV ROAD, Amount due- Rs. 5388752.05 (Rupees Fifty

PLUS INTEREST & OTHER CHARGES Add: A-144, 2nd Floor, Jhilmil Colony, New Delhi-110095 Mrs. Pooja Batra (Guarantor/Mortgagor), Add: D-67, Jhilmil Colony, Near Green Valley Public School THEREON Delhi-110095, Add: A-144, 2nd Floor, Jhilmil Colony, New Delhi-110095

Mrs. Lalita Batra (Prop.) Add: D-67, Jhilmil Colony, Near Green Valley Public School, Delhi-110095.

Property No. 1 Residential Property at A-144, 2nd Floor, Jhilmil Colony, New Delhi-110095 having covered area of 720 Sq ft. in the Name of Mrs. Pooja Batra W/o Lalit Batra. North: S-lane, South: Road, East: Property no. A-145, West: Property no. A-143 Date & Time of E-Auction: 24.08.2022 between 12.00 AM to 05:00 PM with 10 minutes unlimited auto extension. Reserve Price RS. 31,50,000/- (Thirty One Lakh Fifty Thousand

Only) Earnest money to be deposited - Rs. 3,15,000/- (Rs. Three Lakh Fifteen Thousand Only) @ 10 %, Bid Increment Value-Rs. 20,000/- (Rs. Twenty Thousand Only) 2. Branch name and address Vivek Vihar Branch, PHONE-7751958595

Name of the Borrower & BORROWER: . Mr. Ashwini Kumar Sharma and Mrs. Mamta Sharma and Mr. Ravindra Kumar Amount due- Rs. 5.71.205/- (Five Lakh) **Guarantor/s** Athotra, Flat No. A-1, Ground Floor, Plot No. C-129, Shalimar Garden Extension –II, Village- Pasonda, Seventy one Thousand Two Hundred and Pargana-Loni, Dist – Ghaziabad U.P.- 201009 Five Only) PLUS INTEREST & OTHER

All that piece and parcel of RESIDENTIAL PROPERTY bearing Flat No. A-1, Ground Floor, Plot No. C-129, Shalimar Garden Extension –II, Village- Pasonda, Pargana- Loni, Dist - Ghaziabad U.P. 201009 admeasuring 450 Sq.ft (Super Built up/ carpet area) situated in Ghaziabad held in the name of Mr. Ashwani Kumar Sharma and

Mrs. Mamta Sharma bounded by. Boundaries: North-Service Lane 12 ft wide, South -Road 30 ft wide, East - Plot No. C-130, West- Plot No. C-128 Date & Time of E-Auction: 24.08.2022 between 12.00 AM to 05:00 PM with 10 minutes unlimited auto extension. Reserve Price Rs. 20,00,000/-(Twenty Lakh Only) Earnest money to be deposited - Rs. 2,00,000/-(Two Lakh Only) @ 10 %, Bid Increment Value-10,000/-(Ten Thousand Only).

3. Branch name and address Shalimar Bagh BRANCH, PHONE-9988038300

Name of the Borrower & 1. M/s S G Agro International (Borrower) 241,242, G T Karnal Road, Bakoli, Delhi. (Rented) Rs. 2,79,95,302.98 (Rupees Two Crore Seventy Nine Lakh Ninety five Thousand **Guarantor/s** 2. Mr Sushil Kumar Garg (Proprietor / Guarantor) BW 95 B, Shalimar Bagh, New Delhi - 110088

Three Hundred two and Paise Ninety Eight Only) as on 28.07.2021 together with up-todate interest, cost and charges etc. with effect from 29.07.2021 Residential flat at first floor, at BW-95B, Shalimar Bagh, Delhi owned by Mr. Sushil Kumar Garg s/o Sh. Mangoo Ram. Area 1345 Sg Ft. On the North: Entry / Staircase / Flat No 96B, On the South: Gali/Park, On the East: Flat No 94 B, On the West: Side Gali/Park

Date & Time of E-Auction: 24.08.2022 between 12.00 AM to 05:00 PM with 10 minutes unlimited auto extension Reserve price Rs.2,60,00,000/- (Rupees Two Crores Sixty Lakhs Only) Earnest money to be deposited – Rs.26,00,000/- (Rupees Twenty Six Lakhs only) @ 10 %, Bid Increment Value- Rs.25000/- (Rs. Twenty Five Thousand Only).

R/o: H No. 700 / 55, Gali No. 24 A, Vijay Park, Maujpur, Delhi – 110053

4. Branch name and address Rohini Sector-16 Branch, PHONE-011-27573662 Name of the Borrower & BORROWER: IZHAR – UL-HAQ s/o IKRAMUL HAQ & JISHAN – UL-HAQ s/o IZHAR – UL-HAQ Amount due- RS. 3253465.58 PLUS

Flat no. E-670, Gali no.3, LIG Flat, Third Floor with roof rights, Masjid Wali Gali, Babarpur, Shahadara, Delhi-110032. Boundaries of the property: East: GALI 15ft. Wide, West: other property. North: other property and South: other property

Date & Time of E-Auction: 24.08.2022 between 12.00 AM to 5.00 PM with 10 minutes unlimited auto extension.

Reserve Price RS. 8,42,000/- Earnest money to be deposited - RS. 84,200/- @ 10 %, Bid Increment Value-Rs. 8,300/-(Rs. Eight Thousand Three Hundred Only). 5. Branch name and address Rohini Sector-16 Branch, PHONE-011-27573662

Name of the Borrower & Anil Kumar Jha & Archana Jha w/o Anil Kumar Jha R/o H No. D-259/C, First Floor, Kh.no.60, Gali Amount due- Rs. 37,68,869.02 PLUS INTEREST & OTHER CHARGES THEREON no.8, New Sabhapur (Near MCD Primary School), Delhi-110094.

Boundaries of the Property: East: other property, West: Property B-272, North: Gali no. 12 and South: other property Date & Time of E-Auction: 24.08.2022 between 12.00 AM to 5.00 PM with 10 minutes unlimited auto extension.

All that piece and parcel of Property No. 178-A/III, First Floor Jeevan Nagar Ashram, New Delhi 11001

Reserve Price RS. 14,33,000/- Earnest money to be deposited - RS. 1,43,000/-@ 10 %, Bid Increment Value-Rs. 14,300/-(Rs. Fourteen Thousand Three Hundred Only).

6. Branch name and address Rohini Sector-16 Branch, PHONE-011-27573662

Name of the Borrower & BORROWER: Kamini Gupta & Rajesh Gupta, R/o H. No. 1/ 10073, Top Floor, street No. 3J, West Amount due- Rs. 19.88.275.02 PLUS INTEREST & OTHER CHARGES THEREON Gorakh Park, Opp. Vikram Bedi, Shahdara, Delhi-110032 PROPERTY BEARING NO. II/164, Upper Ground Floor, Chhota Gurudwara Wali Gali, Near Jain Sarees, Teliwara, Shahdara, Delhi-110032

Boundaries of the property: East: Other Property, West: Gali, North: Other Plot and South: Part of the property Date & Time of E-Auction: 24.08.2022 between 12.00 PM to 5.00 PM with 10 minutes unlimited auto extension

Reserve Price Rs. 14,00,000/- Earnest money to be deposited - Rs. 1,40,000/-@10 %, Bid Increment Value-Rs. 13,680/- (Rs. Thirteen Thousand Six Hundred Eighty Only). 7. Branch name and address Rohini Sector-16 Branch, PHONE-011-27573662

Name of the Borrower & BORROWER: Smt. Preeti Neha and Mr. Charanjeet Singh

Amount due- Rs. 26.72 Lakh (Rupees **Guarantor/s** Property No. 178-A/III, First Floor Jeevan Nagar Ashram, New Delhi 110014 Twenty Six Lakhs Seventy Two Thousand) Mr Anil Kumar 178-A Ground Floor Centre Portion, Jeevan Nagar Near Govt School, New Delhi 110014 together with future interest

North: Entrance, South: Property no. 178-B, East: Property no. 178A/B, West: Other Property Date & Time of E-Auction: 24.08.2022 between 12.00 AM to 05:00 PM with 10 minutes unlimited auto extension. Reserve Price Rs 12,25,000/- (Twelve Lakhs Twenty Five Thousand only) Only) Earnest money to be deposited - Rs. 1,22,000/-(Rupees One Lacs Twenty Two Thousand Only) @10 %, Bid Increment Value-10,000/-(Ten Thousand Only).

8. Branch name and address Rohini Sector-16 Branch, PHONE-011-27573662

Name of the Borrower & BORROWER: Babita, Pankaj Kumar & Sunil Kumar R/o G-1, B-1/144, Ground Floor, DLF Dilshad Amount due- Rs. 40,54,700.04 PLUS Extension II, Village-Brahmpur, Bhopura, Pargana Loni, Shahibabad, Ghaziabad, U.P.-201005 INTEREST & OTHER CHARGES THEREON PROPERTY BEARING NO.272/2, SECOND FLOOR, KHASRA NO.316, GALI NO.12, BHAJANPURA, DELHI-110053. Boundaries of the property: East: other property, West:

Property B-272, North: Gali no. 12 and South: other property Date & Time of E-Auction: 24.08.2022 between 12.00 PM to 5.00 PM with 10 minutes unlimited auto extension. Reserve Price Rs. 25,00,000/-

Earnest money to be deposited - Rs. 2,50,000/-@10 %, Bid Increment Value-10,000/-(Ten Thousand Only).

9. Branch name and address Rohini Sector-16 Branch, PHONE-011-27573662

Name of the Borrower & BORROWER: Sandeep Sajan and Harendra Kumar Maharaj **Guarantor/s** Flat no.G-1,B-1/120 Ground Floor DLF DilshadExtn IISahibabad Gahziabad Uttar Pradesh 201005 Kailash s/o Kishan Arya 53-54 Pocket -8 Sector 23 Rohini New Delhi-110085

INTEREST & OTHER CHARGES THEREON Flat No. G-1 B-1/120 Ground Floor, DLF Dilshad Garden Extn II Sahibabad. Ghaziabad Uttar Pradesh-201005. North: Prop. B 1/121, South: Prop. B 1/119. East: Prop B 1/113, West: 30 ft./ Road

Date & Time of E-Auction: 24.08.2022 between 12.00 AM to 05:00 PM with 10 minutes unlimited auto extension. Reserve Price Rs. 12,00,000/-(Twelve Lakh Only) Earnest money to be deposited - Rs. 1,20,000/- (One Lacs twenty Thousand Only) @ 10 % Bid Increment Value-10,000/- (Ten Thousand Only).

**TERMS & CONDITIONS:** 

1. The e-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" and "AS IS WHAT IS BASIS" 2. The successful bidder shall at the end of the auction pay 25% of the bid amount which shall be inclusive of the bid amount immediately on the sale being knocked down in his favor and the balance within 15 days from the date of sale confirmation. Payment is to be made by RTGS/NEFT to the account of—Authorized officer, on or before 24.08.2022, on default

in such payment the property shall be resold and the defaulting purchaser shall not have any claim whatsoever and the amount already paid shall be forfeited. Any statutory and other dues payable either accrued or arisen already shall be borne by the purchaser of the property.

To the best of knowledge and information of the Authorized Officer, there is no encumbrance on the property. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property/ies & to inspect & satisfy themselves. Property can be inspected from 10:30 AM to 5:00PM after consultation with Authorized Officer.

5. "In the event of failure of the successful bidder to tender 25% of the sale price then and there, the EMD deposited by him shall be forfeited to secured creditor and the bid accepted

shall stand cancelled automatically" 6. The intended bidders who have deposited the EMD and require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may contact www.mstcecommerce.com. The intending bidders / purchasers required to register through https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jspby using their

For Registration related queries e-mail to ibapiop@mstcecommerce.com For EMD payment/refund related queries e-mail to ibapifin@mstcecommerce.com

9. For Registration and Login and Bidding Rules visit https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp and Click "Buyer Guide for Login and Registration" 10. For any property related query may contact the Branch Head.

> (FOR DETAILED TERM AND CONDITIONS PLEASE REFER TO https://www.ibapi.in, www.unionbankofindia.co.in) STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT 2002

The borrower / guarantor are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with up to date interest and ancillary expenses before the date of e-auction failing which the property will be auctioned / sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost.

**AUTHORISED OFFICER, UNION BANK OF INDIA** New Delhi

(91,773.70)(91,773.70)(93,477.71)(94,345.29) 219,668.08 219,668.08 219,508.08

 a) The above is an extract of Consolidated and Standalone unaudited financia results for the quarter ended June 30, 2022, filed with the BSE Limited under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

c) The above results are duly reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors in its meeting held on August 5, 2022. d) Consolidated and Standalone unaudited financial results for the guarter ended

Accounting Standards) Rules, 2015, ("Ind AS"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and For and on behalf of Board of Directors of

Din: 00063017

Chairperson

Parshotam Dass Agarwal

mobile number and valid email-id. They are further required to upload KYC documents and Bank Details.

DATE: 05.08.2022, PLACE: DELHI

Sd/

PROPERTY BEARING NO.272/2, SECOND FLOOR, KHASRA NO.316, GALI NO.12, BHAJANPURA, DELHI-110053, 4.276.33

0.60 0.59

Place : Delhi

EXTRACTS OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

0.36 0.36 CONSOLIDATED Quarter

and Other Comprehensive Income (after tax)] 6 Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited 431,035 Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued

 b) Full format of the guarterly financial results are available on the websites of the BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company (www.guintdigitalmedia.com).

**Quint Digital Media Limited** 

.....Defendant

REGISTRAR.

.....Applicant

.....Defendant

**QUINT DIGITAL MEDIA LIMITED** CIN: L74110DL1985PLC373314

**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW** 

Extraordinary items) Total Comprehensive Income for

the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after 7,966.63 13,114.85 tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital 219,668.08 219,668.08 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited

operations) 1) Basic 0.19 2) Diluted 0.19 Particulars 30, 2022 2022 166,476.19 177,019.21

(before Tax, Exceptional and/or (60,810.29) (34,831.58) Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ (60,810.29) (41,303.82) or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or (63,517.50) (46,160.69) Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ 5 (Loss) for the period (after tax) (63,296.79) (42,398.37)

operations) 1) Basic : (1.93)(1.92)2) Diluted : (4.18)

policies to the extent applicable.

Date: 05/08/2022

For property at SI. No 3: Land Line No. 011-22121575, e-mail id-cb19117@canarabank.com

DATE: 04.08.2022, PLACE: NEW DELHI **FORM NO-5** युनियन बैंक **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL** 

**Guarantor/s** 

SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE THROUGH PUBLICATION O.A. No. 335/2020 [Summonsto defendant under Section 19(4) of the Recovery of debts due to Banks and Financial Institution Act 1993 read with rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules 1993)] O.A. No. 335/2020

NOIDA-201301 through its Partners- Shri Ravinder Kumar Madaan (Defendant No. 2) and Smt. Usha Madaan (Defendant No. 3) R. RAVINDER KUMAR MADAAN S/o Late Shri MS Madaan R/o 173. Sector-15A NOIDA 201301 **3. SMT. USHA MADAAN** W/o Shri Ravinder Kumar Madaan R/o 173. Sector-15A

**VERSUS** 

M/S SATGURU IMPEX, a partnership concern situated at 173, Sector 15A

600/1, UNIVERSITY ROAD, NEAR HANUMAN SETU MANDIR LUCKNOW-226007

(Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh)

**UNION BANK OF INDIA (e-CORPORATION BANK)** 

**M/S SATGURU IMPREX & OTHERS** 

NOIDA 201301

In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 22.09.2022 at 10.30 am failing which the application shall be heard and decided in your absence.

(FORMERLY KNOWN AS GAURAV MERCANTILES LIMITED) Regd Office: 403 Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, Delhi- 110008 | Tel: 011- 45142374 Corporate Office.: Carnousties's Building, Plot No. 1, 9th Floor, Sector 16A, Film City, Noida - 201301 | Tel. No.: 0120 4751818

Website: www.quintdigitalmedia.com | Email: cs@thequint.com

(₹ In '0						
	STANDALONE					
Sr. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2022	Year ended March 31, 2022	Corresponding 3 months ender June 30, 2021		
1	Total Income from Operations	103,660.12	103,059.96	63,939.2		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10,700.85	18,623.88	6,606.5		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	10,700.85	18,623.88	6,606.5		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or	7,993.64	13,971.34	4,902.5		

219,508.08 141,502 Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued

Year ended | Corresponding ended June March 31, 3 months ended June 30, 2021 Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period

June 30, 2022, has been prepared according to the Companies (Indian

11. As per the Income Tax Rule, TDS @ rate of 1% of Auction Price is payable by the successful auction purchaser.

#### **संक्षिप्त खबरें** दिल्ली सरकार बन गई घोटालों की सरकार : बिधुड़ी नई दिल्ली।दिल्ली विधानसभा में

नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधडी ने नता प्रातपक्ष रामवार सिंह बिब्हुड़ा न दिल्ली के स्कूलों में बनाए गए कमरों की घंटिया क्वालिटी को देखते हुए इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है **।** इसीलिए दिल्ली सरकार के शिक्षा इसालिए दिल्ला सरकार के शक्षा विभाग ने ही पीडब्ल्यूडी पर घटिया निर्माण का आरोप लगा दिया है। बिघूड़ी ने कहा है कि दोनों ही विभागों के इंचार्ज उपमुख्यमंत्री मनीष रिस्तोदिया हैं। उन्हों इस मामले में जवाब तलब किया जान चाहिए।बिधुड़ी ने कहा है कि भाजपा मांसद मनोज तिवारी पहले ही इस सासद मनाज तिवारा पहल हा इ मामले को उठा चुके हैं और जोकाचुक ने उस शिकायत पर संज्ञान भी लिया है । उनकी शिकायत के अनुसार दिल्ली सरकार ने 12 हजार से ज्यादा कमरे बनाए हैं ।एक कमरे की लागत ५ लाख रूपए आनी चाहिए थी जबकि लागत २८ लाख रूपा था जबाक लागत 28 लाख रुपए की आई है । इस तरह कुल घोटाला 2 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है । सच्चाई यह है कि फाइव स्टार होटल के निर्माण में भी इतना खर्वा नहीं। होता बिधूड़ी ने कहा कि अब दिल्ली के सरकारी रकलों के पिंसिपलों ने ही शिक्षा विभाग से वटिया निर्माण की शिकायत कर दी है। इन पिंसिपलों ने कहा है कि ह। इन प्रासंपता न कहा है। क स्कूलों के कमरों में सीलन और लीकेज हो रही है |प्लंबर और ह्लेक्ट्रिक का काम अधूरा ही छोड़ दिया गया है। कई स्कूलों में दीवारे

#### शिकायत नहीं बल्कि करोड़ों रूपए के घपले का है। क**पड़ा कारोबारी से गैंगस्ट**र कपिल सागवान ने लाखो रूपये की मागी रगदारी

भी अधरी छोड़ दी गई. सीढ़ियों को

भा अधूरा छाड़ दा गह, सादिया का भी पूरा नहीं बनाया गया । अभी स्कूलों के कमरों को बने दो साल भी नहीं हुए और टायट्स उस्बड़ गई हैं । प्रिंसिपलों द्वारा की गई शिकायत पर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से प्रिस्टार के शिक्षा विभाग

ने पीडब्ल्यूडी को शिकायती पत्र भेजा है।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि

यह मामला सिर्फ विभागों की

नई दिल्ली। द्वारका के बिंदापुर इलाके में रहने वाले एक कपड़ा इलार्क में रहने वाले एक कपड़ा कारोबारी से गैंगस्टर कपित सांगवान ने लाखों रूपये की रंगदारी मांगी हैं। कारोबारी और उनके बेटे के मोबाइल फोन पर मैसेज कर रूपये की मांग की गई हैं। गैंगस्टर ने रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। डरा सहमा कारोबारी के परिवार वालों ने प्रलिस को शिकायत ही है ।कारोबारी के बेटे भग शकायत दा है । कारोबारी के बेटे की शिकायत पर बिंदापुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की तकनीनी नंगन के मामले की तकनीकी जांच की . जा रही है।पीडित कारोबारी अपने परिवार के बिंदापुर इलाके में रहता है और इलाके में उसका कपड़े का ह आर इलांक में उसका केपड़ का क़ारोबार है। कारोबारी ने पुलिस को ¡दी शिकायत में बताया कि 29 |जुलाई को उसके पिता के मोबाइल |लंबर पर एक धमकी भरा मैसेज |आया | मैसेज करने वाले ने खद को गैंगस्टर कपिल सांगवान बताया। भैगेज में कहा गया है कि लाखों

ामराज में कहा गया है कि लाखा रूपये का इंतजाम कर लो। पैसे नहीं दिने पर उसे गोली मार दी जाएगी । बदमाश ने मैसेज में लिखा है कि वह उसके परिवार के सदस्यों को जानता है और वह कहां रहते हैं .इसकी जानकारी उन्हें है।कारोबारी ने मैसेज को गंभीरता से नहीं लिया और उसे किसी का मजाक समझा आर उस किसा को मजीक समझा। लेकिन बदमाश ने अलग नंबर से कारोबारी के मोबाइल पर भी मैसेज भेजा और पैसे का इंतजाम नहीं करने पर जान से मारने की धमकी |दी **|** अपनी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उन्हें लगातार धर्मकियां ामिल रही है।

# मंत्री कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्र का किया उद्घाटन

दिल्लों के महिला एवं बाल विकास मंत्री के लाश गहलीत ने आज जजफाद में सीनक एक्लेव, पार्ट में एक नए आंगनवाड़ी के दें का उद्धारन किया। क्षेत्र में नया आंगनवाड़ी के दें का उद्धारन किया। क्षेत्र में नया आंगनवाड़ी के दें के एक लेकिन के दें पहल शिका, टिकाकरण, स्वास्थ्य जांच, 'फरल सेवाएं व पोषण और स्वास्थ्य शिका सहित सेवाओं का एक 'फैक प्रदान करके कव्यों, गर्चवती महिलाओं और निर्माण महिलाओं और के पीषण और स्वास्थ्य शिका सहित सेवाओं के पोषण और स्वास्थ्य शिका स्वीत सेवाओं के पोषण और स्वास्थ्य सिंग सामाओं के पोषण और स्वास्थ्य सिंग सामाओं के पोषण और स्वास्थ्य सिंग सामाओं के पोषण और स्वास्थ्य स्वास्थ्य सिंग सामाओं के पोषण और स्वास्थ्य निर्संग माताओं के पोषण और स्वास्थ्य नासग माताओं के पाषण ओर स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करेगा। इस आंगनवाड़ी केंद्र में 60 बच्चों और 15 महिलाओं को पहले ही नामांकित किया जा चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं ऐसी जरूरतमंद महिलाओं व बच्चों को इस नए खले आंगनबाडी केंद्र में लाने के लिए उनकी पहचान करने के लिए ग्रातिशाम कर रही हैं।

सवक्षण कर रहा है। यह आंगनवाड़ी केंद्र क्षेत्र की महिलाओं को अपने स्वयं सहायता समृह (एसएचजी) बनाने के लिए



प्रोत्साहन और सविधा प्रदान करेगा। 10897 आंगनवाडी केंद्र हैं जिनमें

आंगनवाडी केंद्रों को एकीकत और व्यापक सेवा वितरण के लिए सहेली समन्वय केंद्र हब में मिला दिया गया इस नए खले आगनबाडी केंद्र में लाने के लिए उनकी पहचान करने के लिए

आगमवाडी केटी को एकीकत और व्यापक सेवा वितरण के लिए सहेली समन्वय केंद्र हब में मिला दिया गया है

रू । सैनिक एन्क्लेव में आंगनबाडी केंद्र स्थानीय महिलाओं को सोशल कैपिटल इन्हान्स्मेंट सहित स्वास्थ्य कापटल इन्हान्स्य साहत स्वास्थ्य, पोषण, अधिकार, महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण पर सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा के लिए सहेली समन्यय केंद्र के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस अवसर पर बोलते हुए दिल्ली

इस अवसर पर बालत हुए दिल्ला के महिला एवं वाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, मुख्यमंत्री अर्यावन्द केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में दिल्ली सरकार वह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि दिल्ली में आंगनबाडी केंद्रों के मजबृत नेटवर्क

के माध्यम से संकटग्रस्त महिला या बच्चे की पहचान हो सके तथा उन्की देखभाल की जाए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। जिला कार्यालयों को आंगनबाडियों के माध्यम से कमजोर बच्चों की पहचान

माध्यम सं कमजार बच्चों का पहचान करने और उन्हें बाल संरक्षण सेवाओं से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन्हों ने आगे कहा कि हमने एसएचजी और संसाधन संगठनों से ईओआई आमंत्रित किए हैं जिससे शीघ्र ही पुरक पोषण की मौजुदा आपूर्ति में एक प्रणालीगत परिवर्तन होगा और आंगनवाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों को परोसे जाने वाले पोषण भोजन की गुणवत्ता में भी सुधार किया

भीजन का गुणन ... जा सकेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों ने जीव बच्चों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता योजनाओं उपलब्ध विसाय स्किता पानाआ के लाभ उन तक पहुँचाने के निर्देश दिए तथा उनके (महिलाओं) आर्थिक सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए उन्हें सहेली समन्वय केंद्रों से जोड़ने के भी निर्देश दिए।

# पतगबाजी पर प्रतिबंध लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पतंगवाजी पर प्रतिबंध लगाने से साफ इंकार कर दिया कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पतंगवाजी एक सांस्कृतिक परंपरा है और इस पर रोक लगाना न्यायोंचित नहीं है। वहाँ, सरकार और पुलिस पुलान बहाँ, सरकार और पुलिस पुलान को चाइनीज मांडे को लेकर एनजीटी को चाइनाज माझ का लेकर एनजाटा के आदेश का पालन करना चाहिए। चाइनीज मांडो की विक्री रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि एनजीटी ने पहले ही चीनी सिंथेटिक एनजोटी न पहल हो चाना सम्याटक 'मांझा' पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। व्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस मांझे की बिक्री रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इसके साथ ही उल्लंघन कर्ता वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर रही है। दरअसल, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में पतंगों के उड़ने लिए बनाए गए नियम-कानून कमजोर हैं, जिसका लाभ उठाकर दुकानदार जनाहत थार्चिका में पतगा के उड़न, बिक्री, खरीद, भंडारण और परिवहन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। क्योंकि पतंगबाजी के कारण कई पक्षी और जानवर और इंसानों हैं, जिसका लाभ उठाकर दुकानदा इसका भंडारण या बिक्री करते हैं:

करों इ रुपये लोग लेकर दिल्ली को कर्ज में दुवों दिला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के झुट की सच्चाई को हमने दिल्ली संकार 7 7 वर्षों में। रुपये का भी लोग नहीं लिया है और दिल्ली के पास सरप्तस बजट है। चौठा अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल को वह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि

उन्होंने दिल्ली को 38.155 करोड़ के

उन्हान (दल्ला का 38,155 कराड़ क कजें में इब्रॉ दिया है। परातृ केज़रीवाल की परम्परा झुठ बोलने की रही है इसलिए से अपनी नाकामियों को डिगाने के लिए एक के बाद एक झुठ दिल्ली सहित अन्य राज्यों में बोलते रहे हैं। सच्चाई वह है कि केज़रीवाल सरकार

के पास दिल्ली में विकास कार्यों के लिए

कोई विजन ही नहीं है वह बिना विजन के काम कर रहीं है जिसके कारण बजट

का 49,731 करोड़ रुपये वे दिल्ली के विकास पर खर्च ही नहीं कर पाई।

DELHI HIGH COURT की जान चली गई है। या फिर पक्षी घायल हो जाते हैं। बता दें कि वर्ष 2017 में नेशानल ग्रीन टिब्युनल (एनजीटी) ने चाइनीज मांझे के भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी की थी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर क्षेत्र में चाइनीज मांझे की बिक्री और भंडारण पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग पा रही है? प्रतिबंध के पांच साल बाद अब भी यह कैसे लोगों को आसानी से मिल जाता है कैसे प्रभावी बने प्रतिबंध ? क्या इसके

न्यायाल्य श्रीमान सिविल जज (सी.डि.) गीतमबुद्धनगर उत्तराधिकार वाद सं-उग्7 सन 2022 श्रीमती बंबेल बगा फ्ले रत गीरज बगा निवादी क्षे-वा सिम्म-2 ग्रेटर नोएव जिला गीतमबुदगर।

. प्रकट पणा 2. आदिय बणा पुत्राण स्त. श्री गीराज बणा निवासीगण की 41 सिम्म-2 फ्रेटर नेएख जिला गीरामबुदनगर।

अध्यक्षिण । अधिकारिण आर्थन पार्थन प्राव्धिकार वा अर्थन प्रार्थन प्रविक्र के स्वार्धिक प्रार्थ आर्थन प्रार्थ । प्रार्थ का ने प्रवाद कर प्रविक्र के प्रार्थ के प्रविक्र के स्वार्ध के प्रवाद कर प्रविक्र के स्वार्ध के प्रवाद के प्

# मकानों व कारों की माग में पड़ सकता है असर

नई दिल्ली, प्रात : किरण संवाददाता

ारतीय रिजर्व बैंक ने आज आशा भारतीय रिजय बैंक में आज आशा के अनुरूप क्यांज दों में बढ़ीतरी करते हुए रेपो रेट में 50 बेसिस राजाईट को बढ़ी होरी की। अब से राजाईट को बढ़ी होरी की। अहं री रेट 5.4 भीस दी हो गई है। इसी के साथ आरबीआई के इस करम से हर प्रकार के ब्याज दों में बढ़ीतरी की संभावना है, इनमें जभा दर और कज़ दर समिमिलत हैं। फ्लास्यरूप आने वाले समय में उपभोक्ताओं को उनके मकान व कार आदि खरीदने के लिए अधिक ब्याज का भुगतान

करना हागा। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी से मकान तथा कारों की मांग में कमी आती है लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय विशेषज्ञा को मानना ह कि भारतीय अगंथव्यवस्था जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, वैसे में घरों और कारों की मांग में किसी प्रकार की गिरावट की संभावना नहीं है। त्रेहान समूह के प्रबंध निदेशक सारोंग त्रेहान ने कहा कि आरबीआई ने इस वर्ष पहले ही दो तीन बार क्याज दरों

की मांग पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से करन वाला अथव्यवस्थाओं में स एक हैं इस कारण भारतीय उपभोक्ता भविष्य के प्रति बहुत आशान्वित हैं। नतीजतन, सभी प्रकार की संपत्तियों की मांग लगातार बनी हुई है और निकट भविष्य में इसकी मांग बनी

हुइ रहगो। वहीं एआईपीएल के समृह कार्यकारी निदेशक पंकज पाल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि न अपना प्राताक्रवा म कहा कि मौजूदा मुद्रास्भीति के परिश्य को देखते हुए आरबीआई का फैसला अमेशित है। इस फैसले से कर्ज और जमा दरों में मज्जूती आने को संभावना है। डिमांड का थोड़ा सा प्रभाव हो सकता है, लेकिन हम हाउसिंग मार्केट के डिमांड पर एक हाउसम् मांकट के ाडआ ए ए एक बढ़े प्रभाव की उम्मीद नहीं करते हैं। शेवर बाजार, सोना तथा अन्य निवेश के विकल्लों में भारी उतार-चड़ाव देखने को मिल रहा है इस कारण से उपभोक्ताओं का रियल एस्टेट में निवेश के प्रति झुकाव बढ़ा है और आ थे भी इसके बनी रहने की

## आरबीआई ने की ब्याज दरों की बढ़ोतरी बिना उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के दिल्ली सरकार राजधानी के विकास का कोई काम नहीं करेगी ?:चौ. अनिल है कि केजरीवाल ने 7 वर्षों 27,684 करोड़ रुपये लोन लेकर दिल्ली को

नई दिल्ली, प्रात : किरण संवाददाता

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिल्ला प्रदश काग्नस कमटा के अध्यक्ष जी। अनिल कुमार ने कहा कि श्रृष्टास खत्म करने का बादा कर सत्ता में आए अरविन्द के जरीवाल ने सर्वधानिक संस्था कैग द्वारा दिल्ली सरकार खातों की आडिट की रिपोर्ट को चार वर्षों तक विधानसमा के पटल पर पेश नही करके संविधान का उल्लंघन और अवमानना की है। प्रत्येक राज्य के अवमानना का है। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और वितमंत्री की सर्वेधानिक किम्मेदारी होती है कि वह प्रतिवर्ध खातों के ऑडिट विधानसभा के पटल पर रखें। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कैग और उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा कई बार हस्तक्षेप करने के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बिना चर्चा किए कैग ऑडिट 5 जुलाई को विधानसभा पटल में रखी।

चै0 अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि कैग की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की जो अहम खामियां सामने आई हैं उन्हें दबाने के कारण ही केजरीवाल सरकार

रिपोर्ट में सामने आई दिल्ली सरकार की वर्षों की रिपोर्ट को मनीष सिसोदिया के

गंभीर वित्तिय अनियमितताओं राजस्व गभीर वित्तिय आनंबामतताओ, राजस्य के झूठे अनुमान, फिजूलखर्ची और नियमों की अवहेलना को छिपाने की कोशिया की गई। दिल्ली कांग्रेस ने 7 जुलाई, 2022 को प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजित दिल्ली की जुनता के सामने उजागर किवा था।

को जनता क सामान उत्तर (कवा था) चौ) अतिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के बित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट, राजस्व आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र और पीएसयू, सामाजिक सामान्य और आर्थिक क्षेत्र, गैर-पीएसयू, जीएनसीटीडी के बित्त खाते और जीएनसीटीडी के बित्तियोग खाते

वया का रिपाट का मनाष सस्सादिया क पास कैंग द्वारा प्रस्तुत किया जाने के बाद सं लॉवित थी, जो पूरी तरह संवैधानिक अवमानना का मामला है जिसके लिए मुख्यमंत्री अरविन्द के जरीवाल दोषी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में 394 मामलों में 521.61 करोड़ रुपये की अनियमिततायें पाई गई है जिनमें इस राशि का भ्रष्टाचार हुआ इतनी बड़ी राशि कहां गई और किसने खाई, इसकी जांच

कहा गई आर किसन खोड़, इसका जाय होनी चाहिए। चौठ अनिल कुमारने कहा कि कैग रिपोर्ट की सच्चाई को हमने उजागर किया था कि कि वर्ष 2022 तक दिल्ली के उपर 38,155 करोड़ रुपये कर्ज बढ़ की 2017-18 से 2021-22 तक 5 गया है, जबकि सीएजी रिपोर्ट बताती

# सिसोदिया खुद रखेंगे दिल्ली में सड़कों के पुनर्विकास योजना पर नजर

दिल्ली सरकार ने सहकों के प्रनिवंकास दिल्ली सरकार न सड़कों के पुनावकास बोजना पर फोकस बढ़ा दिवा है। अब इस बोजना को लेकर हर सप्ताह उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समीक्षा बैठक क्रेंगे। सिसोदिया ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत यरोपियन तर्ज पर विकसित की जा रहीं इन 16 सड़कों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निर्माण कार्यों को प्रगति को समिक्षा को। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने पाया कि कई सड़कों से पुनर्थिकसित किए जाने वाले भाग पर सुंदरीकरण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन कुछ सड़कों पर ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा मानकों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। सिसोदिया ने



का पालन न करने पर वाले ठेकेदार को बस्क्या नहीं जाएगा। साथ ही अब को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अब हर सप्ताह इन सभी परियोजनाओं भौतिक निरीक्षण किया जाएगा व उसके प्रगति की जांच की जाएगी। ठेकेदारों को इन बातों को रखना है ध्यान – निर्माण स्थल पर रोशनी की उचित

व्यवस्था हो चेतावनी व अन्य साइनेज उपयत्त स्थानों पर लगे हो

स्थाना पर लग हा - निर्माण स्थल पर मौजूद सभी श्रमिकों के पास उनकी सुरक्षा से जुड़ी सभी वस्तुएं हों - निर्माण स्थल की बैरिकेच्डग हो

धूल न उड़े इसके लिए पानी क

#### जतर मतर पर इंडियन यथ कांग्रेस का हल्ला

बोल, केंद्र सरकार को घेरा जकडा हुआ दिखाकर विरोध जताया देश की राजधानी दिल्ली में आज सबह से ही सियासी घमासान देखने को मिल स हो। स्वासा घमासान दखन का ामल रहा है। राहुल गांधी के आहान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हारा देश पर में महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोचा खोल दिया गया है। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर इंडियन यः कांग्रेस की तरफ से बड़े स्तर पर विरोध काग्रस को तरफ से बहे स्तर पर विराध प्रदर्शन कर पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजमी जताई गई। इंडियन यूथ काग्रेस के नेताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। इंडियन यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल इंडियन यूथ कांग्रेस के कर्नाटक अध्यक्ष ने देश मे

लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार

#### विवंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड

	R 000' 5)						
	एकल						
अनु इह	विवरण	30 जून 2022 को समप्त विमाही	31 मर्च, 2022 को समान्त वर्ष	30 जून 2021 को समस्त तदनुरूमी 3 नहींने			
1	संघालन से कुल आय	103,660.12	103,059.96	63,939.20			
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, असाधारण और/या असाधारण आइटम)	10,700.85	18,623.88	6,606.56			
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	10,700.85	18,623.88	6,606.56			
4	कर पश्चात की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और/या असाधारण मर्वों के बाद)	7,993.64	13,971.34	4,902.56			
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [लाभ/(हानि) अवधि के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	7,966.63	13,114.85	4,276.33			
6	इविवटी शेयर पूंजी	219,668.08	219,668.08	219,508.08			
7	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है			141,502			
8	प्रति शेयर आय (११०/- प्रत्येक) (जारी और बंद परिचालन के लिए) 1. मूल: 2. पतला :	0.36 0.36	0.60 0.59	0.19 0.19			
समेकित							
अनु. इत	विवरण	30 जून 2022 को समप्त विमादी	31 मर्थ, 2022 को समान वर्ष	30 जून 2021 को समान तदनुसमी 3 नहींने			

166,476.19 177,019.21 शंचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर से पहले, असाधारण और/या असाधारण आइटम) कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ् (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद) 60,810.29 (34,831.58) (91,773.70 60.810.29 (41.303.82) (91 773 70 कर पश्चात की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और/य असाधारण मदों के बाद) (93,477.71 63 517 50 (46.160.69 63,296.79) (42.398.37 (94,345,29) 6 इक्विटी शेयर पूंजी 219,668.08 219,668.08 219,508.08 रिजर्व (पुनर्मृत्यांकन रिजर्व को छोडव जैसा कि पिछले वर्ष के लेखा परीक्ष बैलेंस शीट में दिखाया गया है 431.035 प्रति शैयर आय (१10/- प्रत्येक) (जारी और बंद परिचालन के लिए)

## कोरोना के वैरिएंट पर अध्ययन रिपोर्ट जल्द रिलीज कर सकता है नामी अस्पताल नई दिल्ली पात : किरण संवाददाता

देश की राजधानी दिल्ली में पिलले दश का राजधाना दिल्ला में पिछल कुछ दिनों के दौरान कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी जारी है। इसके साथ ही संक्रमण दर 10 प्रतिशत इसके साथ ही संक्रमण दर 10 प्रतिशव के पार है तो लोगों की मीत का आंकड़ा भी डराने वाला है। वहीं, दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोगा वायरस संक्रमण के मामलों के बीच दिले के लोक नायक जब प्रकाश नारावण (एलएनजेपी) अस्पताल ने वेरिएट म्यूटेशन पर एक अध्ययन किया और रिपोर्ट आना बाकी है। यह अध्ययन जलाई महीते के प्रधान स्वाल में शरू जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में शुरू हुआ था और अब कहा जा रहा है कि हुआ था और अब कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जा सकती। एलएनजेपी अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉ. सुरेश कुमार का कहना है कि हमने यह जानने के लिए एक अध्ययन किया है कि क्या कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा के पीछे कोई नया वायरस तो नहीं है ? इसके



साथ कोरोना के चलते होने वाले तनाव पर भी अध्ययन रिपोर्ट अगले सप्ताह की शुरूआत में सामने आएगी। कोरोना के बढ़ ते मामले पर डॉ. सुरेश कुमार ने का कहना है कि लोग कोरोना से बहुता के दिगाई का प्राह्म कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा नहीं कर रह है। उन्होंन यह भी कहा कि कोरोना मानले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन गंभीर ता हल्की है। अध्ययन रिपोर्ट के संबंध में उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के मामलों की रिपोर्ट पर अध्ययन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने बृस्टर खुराक भी ले ली है। डा. सुरेश का कहना है कि

कई लोग अभी भी बूस्टर खुराक लेने में अधिक रुचि नहीं दिखा रहे हैं.

लक्षण हल्के हैं। साथ ही यह भी कहा कि शुगर अन्य गंभीर बीमारियों से जुझ रहे लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन इनमें भी लक्षण हल्के हैं। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के एक वरिष्ठ सलाहकार डा धीरेन गुगता के स्वाधिक कोरोज वायर में सामार्थी 

म आधक राच नहा दिखा रह है, लेकिन लोगों को ऐसा कराना चाहिए। वहीं, दिल्ली के अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ एल्पोनोलॉ जिस्ट डा. निखिल वरीय के मुताबिक, कोरोना के मामले निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, लेकिन लक्षण इल्के हैं।

मुताबिक, कोरोना वायरस के मामलों के बढ़ने के कारण लोगों का लापरवाह

# महंगाई-बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल और प्रियंका गांधी हिरासत में

। ।महंगार्ड, बेरोजगारी, जीएसटी और केंद्र महनाह, बराजगारा, जाएसटा आर कह, सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस आज यानी शुक्रवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कार्ल लिबास में नजर आए। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की अलग रणनीति नजर ।आई। आइए जानते हैं विरोध प्रदर्शन से

|आइ। आइए जानत है ।वराध प्रदेशन स जुड़ी 10 खास बातें। | 1 – केंद्र सरकार की नीतियों के |खिलाफ शुक्रवार सुबह कांग्रेसियों ने |संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया।

। 2- सबसे पहले कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने काले लिबास में



राहल गांधी उसके बाद प्रियंका गांधी त्वाराचा गांची ने आरंग रिकार ने पहुंचा गांचा उन्हें का बाद प्रचेश गांचा ने निर्देश हों हों कांग्रेस सांसदों के साथ संसद में जामकर वाड़ा को पूर्विस ने हिरसत्त में ले लिया । साथ प्रधानमंत्र नारेबाजी की। इसके बाद पूर्व कांग्रेस 4- पुलिस ने कांग्रेस कार्यकताओं निकलीं, लेकि अध्यक्ष राहुल गांची ने कार्यकताओं के का प्रदर्शन उग्र होता देख उन्हें निविप्रत ही रोक दिया।

मौजद प्रियंका गांधी ने अपने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास घेरने के लिए निक्लीं, लेकिन उन्हें पुलिस ने रास्ते में

प्रियंका गांधी सड़क पर ही घरने पर बैठ गईं। इस दौरान उन्हें हिरासत में लिया अदशन के दौरान उनके साथ सचिन पावलट, हरीश रावत, अविनाश पांडे और अजब माकन सहित कई बड़े नेता मौजूद थे, पुलिस ने इन्हें भी हिरासत में लिया है। गया। इस प्रदर्शन के दौरान उनके साथ

ालया है। 7- इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, ₹केंद्र सरकार को लगता है कि विपक्ष में जो भी है उनको लगता है कि विपक्ष में जी भी है उनकी दबा सकते हैं। उनको लगता है कि अपनी फौज दिखाने के बाद हम समझौता करे लेंगे। इनके मंत्री कहते हैं कि महंगाई नहीं है। हम प्रधानमंत्री आवास जाकर पीएम

को महंगाई दिखाना चाहते हैं। 8- इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज दिल्ली में जो रोक लगी है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा।

तब भी कई रैलियां हुई हैं, लेकिन कोई रोक नहीं लगी। 9- वहीं. कांग्रेस नेता सचिन पायलट

9- वहा, फाइस नता साथन पायराट ने कहा कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, सैकड़ों बार हमारे सांसदों को हिरासत में लिया गया है, अपनी बात रखने से रोका जा रहा है ये लोकतांत्रिक नहीं है। सरकार मंहगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करना चाहती है।

पर चर्चा नहां करना चाहता है। 10- दिल्ली पुलिस की डीसीपी अमृता गुगुलोथ ने राहुल और प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर कहा, "हमने उनको हिरासत में लिय है क्योंकि यहां पर धारा 144 लागू है और किसी को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। इस संबंध में उन्हें सूचित भी किया गया था लेकिन वह नहीं माने इसलिए पुलिस की ओर से हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई है।